

# Jer

## Chapter 45

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

אֶת- को-	בְּכַתְּבוֹ जब-लिखा-उसने	נִרְיָה नेरिय्याह	בֶּן- पुत्र-	בָּרוּךְ बारुक	אֶל- को-	הַנְּבִיא नबी	יִרְמְיָהוּ यिर्मयाह	דָּבַר बोला	אֲשֶׁר जो	הַדְּבָר वचन	1
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H5374</a>		<a href="#">H1263</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H3414</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H1697</a>	
יְהוֹשִׁיָּהוּ योशिय्याह	בֶּן- पुत्र-	לְיְהוֹשִׁיָּהוּ के-लिए-यहोयाकीम	הַרְבַּעִית चौथे	בְּשָׁנָה में-वर्ष	יִרְמְיָהוּ यिर्मयाह	מִפִּי से-मुँह	סֵפֶר पुस्तक	עַל- पर-	הָאֵלֶּה ये	הַדְּבָרִים वचन	
<a href="#">H2977</a>		<a href="#">H3079</a>	<a href="#">H7243</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H3414</a>	<a href="#">H6310</a>			<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H1697</a>	

ס	לְאָמַר :	יְהוּדָה यहूदाह	מֶלֶךְ राजा
—	कहकर		
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H4428</a>

यहोयाकीम योशिय्याह का पुत्र था। यहोयाकीम के यहूदा में राज्यकाल के चौथे वर्ष यिर्मयाह नबी ने नेरिय्याह के पुत्र बारुक से यह कहा। बारुक ने इन तथ्यों को पत्रक पर लिखा। यिर्मयाह ने बारुक से जो कहा, वह यह है:

בָּרוּךְ : बारुक	עָלֶיךָ तेरे-बारे	יִשְׂרָאֵל इसाएल	אֱלֹהֵי एलोहीम	יְהוָה यहोवा	אָמַר कहा	כֹּה- यों-	2
<a href="#">H1263</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3541</a>	

“इसाएल का परमेश्वर यहोवा जो तुमसे कहता है, वह यह है:

בְּאִנְחָתִי में-मेरी-आह	יָנַעְתִּי थक-गया-हूँ	מִכַּאֲבִי मेरी-पीड़ा	עַל- पर-	יָגוֹן दुख	יְהוָה यहोवा	זָסָה जोड़ा-है	כִּי- क्योंकि-	לִי मुझको	גַּם अब	אֲוִי- हाय-	אָמַרְתָּ कहा-था	3
<a href="#">H0585</a>	<a href="#">H3021</a>	<a href="#">H4341</a>		<a href="#">H3015</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3254</a>			<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H0188</a>	<a href="#">H0559</a>	

ס	מְצָאתִי :	לֹא नहीं	וּמְנוּחָה और-विश्राम
—	पाया		
	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4496</a>

‘बारुक, तुमने कहा है: यह मेरे लिये बहुत बुरा है। यहोवा ने मेरी पीड़ा के साथ मुझे शोक दिया है। मैं बहुत थक गया हूँ। अपने कष्टों के कारण मैं क्षीण हो गया हूँ। मैं आराम नहीं पा सकता।’

אֲשֶׁר- जिसको-	וְאֵת और-को	הָרִם ढाता-हूँ	אֲנִי मैं	בְּנִיתִי बनाया-है	אֲשֶׁר- जिसको-	הִנֵּה देख	יְהוָה यहोवा	אָמַר कहा	כֹּה यों	אֵלָיו उससे	תֹּאמַר कह	וְכֹה यों	4
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2040</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1129</a>		<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3541</a>	

הִיא : वह	הָאָרֶץ पृथ्वी	כָּל- सब-	וְאֵת- और-को	נִתְּשָׁה उखाड़ता-हूँ	אֲנִי मैं	נִטְעָתִי रोपा-है
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5428</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H5193</a>

यिर्मयाह, बारुक से यह कही: “यहोवा जो कहता है, वह यह है: मैं उसे ध्वस्त कर दूँगा जिसे मैंने बनाया है। मैंने जिसे रोपा है उसे मैं उखाड़ फेंकूँगा। मैं यहूदा में सर्वत्र यही करूँगा।”

על- पर-	רעה बुराई	מביא लानेवाला-हूँ	הנני देखो	כי क्योंकि	תבקש ढूँढ	אל- मत-	גדלות बड़ी-चीज़ें	לה अपने-लिए	תבקש- ढूँढता-है-	ואתה और-तू	
		<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H2009</a>		<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H0408</a>			<a href="#">H1245</a>		
המקומות स्थानों	כל- सब-	על पर	לשלל के-लिए-लूट	נפש तेरी-जान	את- को-	לה तुझे	ונתתי और-दूँगा	יהיה यहोवा	נאם- वचन-	בשר शरीर	כל- सब-
<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H7998</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3605</a>
									שם: वहाँ	תלה- जाएगा-	אשר जहाँ
									<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H3212</a>	

बारुक, तुम अपने लिये कुछ बड़ी बात होने की आशा कर रहे हो। किन्तु उन चीज़ों की आशा न करो। उनकी ओर नजर न रखो क्योंकि मैं सभी लोगों के लिये कुछ भयंकर विपत्ति उत्पन्न करूँगा।' ये बातें यहोवा ने कही, 'तुम्हें अनेकों स्थानों पर जाना पड़ेगा। किन्तु तुम चाहे जहाँ जाओ, मैं तुम्हें जीवित बचकर निकल जाने दूँगा।''